



UIN : 512N287V02

न्यू जीवन मंगल

प्लान नं. : 940

हर चेहरे पर मुस्कान का आश्वासन ...

परिपक्वता पर भुगतान किये प्रीमियमों की वापसी के साथ कम प्रीमियम की सावधि बीमा योजना

विशिष्टतायें :

- बिना स्वास्थ्य परीक्षक के साथ उपलब्ध.
- मृत्यु हितलाभ - १) बीमा राशी देय (नैसर्गिक मृत्यु),
२) दुगनी बीमा राशी देय (दुर्घटनात्मक मृत्यु).
- परिपक्वता लाभ - संपूर्ण प्रीमियम की वापसी.
- आयकर की धारा (80C) में छूट की पात्रता - नियमानुसार.
- त्वरित दावा भुगतान प्रक्रिया.

**जी.एस.टी.
फ्री प्लान**

पात्रता शर्तें :

- | | |
|-------------------------------|---|
| • न्यूनतम / अधिकतम प्रवेश आयु | : 18 वर्ष (पूर्ण) से 55 वर्ष |
| • अधिकतम परिपक्वता आयु | : 65 वर्ष |
| • न्यूनतम / अधिकतम बीमाधन | : 10,000/50,000 (1000 के गुणक में) |
| • पॉलिसी अवधि | : 10 वर्ष से 15 वर्ष तक |
| • प्रीमियम भुगतान विधि | : एकल, वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक |
| • रयायती अवधि | : न्यूनतम 60 दिन (2 कैलेण्डर माह) |
| • पुनर्चलन सुविधा | : प्रथम अदत्त प्रीमियम से 2 वर्ष के अन्दर |

अधिक जानकारी के लिए LIC के सूक्ष्म बीमा कार्यालय से संपर्क करें ।



LIC

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
सूक्ष्म बीमा

जिंदगी के साथ भी,

जिंदगी के बाद भी ...

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है ।

www.licindia.com